

मध्यप्रदेश विधान सभा



दिसम्बर, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 (अग्रहायण 28, 1944)

समय 11.00 बजे दिन.

1. निधन का उल्लेख.

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री फूलचंद वर्मा, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (2) श्री मनोज सिंह मण्डावी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (3) श्री भगवत प्रसाद गुरू, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (4) श्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (5) श्री आर. मुथैया, पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (6) श्री माणिकराव होडल्या गावित, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री,
- (7) श्री वेंकट कृष्णमराजु उप्पलपति, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री तथा
- (8) श्री वाय. के. अलघ, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री.

2. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) पटल पर रखेंगे.

4. सितम्बर, 2022 सत्र की स्थगित बैठकें यथा दिनांक 16 सितम्बर, 2022 (दिनांक 28.7.2022) एवं 17 सितम्बर, 2022 (दिनांक 29.7.2022) की प्रश्नोत्तर सूचियाँ तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड- 11 पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन सितम्बर, 2022 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य, रीवा के सिरमौर चौराहे से बोदाबाग तक लघु व्यापारियों को विस्थापित किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री घनश्याम सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, दतिया जिले में सिंध नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 26-पिछोर से निर्वाचित सदस्य, श्री के. पी. सिंह "कक्काजू" को विधान सभा के दिसम्बर, 2022 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

9. सभापति तालिका की घोषणा.

10. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन.

श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

“यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.”.

11. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु एक सदस्य का निर्वाचन.

श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

“यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा (2) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.”.

12. खेल एवं युवा कल्याण मंत्री का वक्तव्य

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, दिनांक 8 मार्च, 2022 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 92 (क्रमांक 856) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगी.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 18 दिसम्बर, 2022.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.